



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र 1945 (श0)
(सं0 पटना 331) पटना, मंगलवार, 18 अप्रील 2023

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 2023

सं० 2/बै०-1-101/2012-68—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-1174 दिनांक-07.03.2023 द्वारा विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता की संवर्ग की भर्ती एवं सेवा शर्त से संबंधित अधिसूचित नियमावली को निरसित करते हुए, "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023]" निर्गत किया गया है एवं बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी विभागों, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो, के कनीय अभियंता संवर्गों के संदर्भ में उक्त नियमावली को ही प्रवृत्त किये जाने तथा अंगीकृत (Adopt) किये जाने हेतु अधिसूचना सं०-1175 दिनांक-07.03.2023 निर्गत है।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद स्वीकृत है।

3. एतदर्थ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-1174 दिनांक-07.03.2023 द्वारा निर्गत नियमावली "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023]" को अंगीकृत (Adopt) किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 331-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>